



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1940 (श10)
(सं0 पटना 281) पटना, मंगलवार 27 मार्च 2018

सं० एल/एच०जी०-301/2016-2409
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प
23 मार्च 2018

विषय:— बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को बिहार पुलिस के सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक के समान ग्रेड पे/वेतन लेवल देने के संबंध में।

मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-289 दिनांक 15.01.2016 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 के कर्मियों को बिहार पुलिस के समान ग्रेड पे क्रमशः 2000, 2400 एवं 2800 रुपए देने की अनुशंसा की गई। साथ ही यह भी अनुशंसा की गई है कि भविष्य में राज्य पुलिस बल के वेतन भत्ते में वृद्धि संबंधी आदेश से गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक पदाधिकारियों/कर्मियों को स्वतः अच्छादित करने संबंधी आदेश निर्गत किया जाए।

2.राज्य पुलिस के सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक (इन्टरमीडिएट/इन्टर) है। विभागीय अधिसूचना सं०-4412 दिनांक 23.05.2017 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक (इन्टरमीडिएट/इन्टर) अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है।

3.सातवां वेतन आयोग लागू होने के पूर्व बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही एवं आरक्षी संगठन के सिपाही का तुलनात्मक विवरणी निम्न प्रकार से है:—

क्र०	पदनाम	बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में वेतनमान	आरक्षी सेवा में वेतनमान	दिनांक 01.01.2016 से अनुशंसित वेतन लेवल	अभ्युक्ति
1	सिपाही	पी०बी०-1, ग्रेड पे-1900	पी०बी०-1, ग्रेड पे-1900	लेवल-3	आरक्षी सेवा के सिपाही को नियुक्ति के समय इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने पर 2000 ग्रेड पे अनुमान्य है।
2	अधिनायक / हवलदार	पी०बी०-1, ग्रेड पे-2000	पी०बी०-1, ग्रेड पे-2000	लेवल-4	आरक्षी सेवा के सिपाही को नियुक्ति के समय इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने पर 2400 ग्रेड पे अनुमान्य है।
3	अधिनायक ग्रेड-1 / सहायक अवर निरीक्षक	पी०बी०-1, ग्रेड पे-2400	पी०बी०-1, ग्रेड पे-2400	लेवल-5	आरक्षी सेवा के सिपाही को नियुक्ति के समय इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने पर 2800 ग्रेड पे अनुमान्य है।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 द्वारा राज्य के कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, जिसमें बिहार पुलिस संगठन के सिपाही, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक को क्रमशः लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5 का वेतन अनुमान्य किया गया है।

5. उपर्युक्त के आलोक में नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बिहार पुलिस के सिपाही एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही का एक समान हो जाने के कारण बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के वैतनिक सिपाही, अधिनायक, अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः बिहार पुलिस सेवा के सिपाही, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक की भांति लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5 का वेतन विभागीय अधिसूचना सं०-4412 दिनांक 23.05.2017 निर्गत किए जाने की तिथि से अनुमान्य किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

6. अतएव सम्यक विचारोपरांत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक सिपाही, अधिनायक, अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः बिहार पुलिस सेवा के सिपाही, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक की भांति लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5 का वेतन विभागीय अधिसूचना सं०-4412 दिनांक 23.05.2017 निर्गत किए जाने की तिथि से अनुमान्य किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव,।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 281-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>